

परीक्षा केन्द्राध्यक्ष की मोहर  
Seal of Superintendent of Examination Centre

परीक्षार्थी द्वारा बॉल-प्वाइंट पेन से भरा जाए  
To Be filled in by Candidate by Ball-Point pen only

उत्तर शीट का क्रमांक  
Sl. No. of Answer-Sheet

अनुक्रमांक

Roll No.

घोषणा : मैंने नीचे दिये गये निर्देश अच्छी तरह पढ़कर समझ लिए हैं।

Declaration : I have read and understood the instructions given below.

वीक्षक के हस्ताक्षर

(Signature of Invigilator) -----

वीक्षक के नाम

(Name of Invigilator) -----

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

(Signature of Candidate) -----

अभ्यर्थी का नाम

(Name of Candidate) -----

पूर्णांक - 150

समय - 3 घंटे

प्रश्न पुस्तिका में पृष्ठों की संख्या

Number of Pages in this Question Booklet : 40

प्रश्न पुस्तिका में प्रश्नों की संख्या

Number of Questions in this Question Booklet : 150

अभ्यर्थियों के लिए निर्देश

1. प्रश्न-पुस्तिका मिलते ही मुख पृष्ठ एवं अंतिम पृष्ठ में दिए गए निर्देशों को अच्छी तरह पढ़ ले। प्रश्न पुस्तिका में लगी सील को वीक्षक के कहने से पूर्व न खोलें।
2. ऊपर दिए हुए निर्धारित स्थानों में अपना अनुक्रमांक, उत्तर-पुस्तिका का क्रमांक लिखें तथा अपने हस्ताक्षर करें।
3. ओ.एम.आर. उत्तर-शीट में समस्त प्रविष्टियां दिये गये निर्देशानुसार करें अन्यथा उत्तर-शीट का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा।
4. सील खोलने के बाद सुनिश्चित कर लें कि प्रश्न-पुस्तिका में कुल पृष्ठ ऊपर लिखे अनुसार दिए हुए हैं तथा उसमें सभी 150 प्रश्नों का मुद्रण सही है। किसी भी प्रकार की त्रुटि होने पर 15 मिनट के अंदर वीक्षक को सूचित कर सही प्रश्न-पुस्तिका प्राप्त करें।
5. प्रत्येक प्रश्न हेतु प्रश्न-पुस्तिका में प्रश्न के नीचे दिए गए चार विकल्पों में से सही/सबसे उपयुक्त केवल एक ही विकल्प का चयन कर उत्तर शीट में सही विकल्प वाले गोले को जो उस प्रश्न के सरल क्रमांक से सम्बंधित हो काले या नीले बॉल-प्वाइंट पेन से भरें।
6. सही उत्तर वाले गोले को अच्छी तरह से भरें, अन्यथा उत्तरों का मूल्यांकन नहीं होगा। इसकी समस्त जिम्मेदारी परीक्षार्थी की होगी।
7. प्रश्न-पुस्तिका में 150 वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए हैं। प्रत्येक सही उत्तर हेतु 1 अंक आवंटित किया गया है तथा गलत उत्तर अंकित करने पर ¼ अंक काटे जायेंगे।
8. प्रश्न-पुस्तिका तथा उत्तर-शीट में निर्दिष्ट स्थानों पर प्रविष्टियां भरने के अतिरिक्त कहीं भी कुछ न लिखें। अन्यथा OMR शीट का मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
9. परीक्षा समाप्ति के उपरान्त केवल ओ.एम.आर. उत्तर-शीट एवं प्रश्न पुस्तिका की कव्हर पेज वीक्षक को सौंपनी है। उत्तर-शीट की कार्बन कॉपी तथा प्रश्न-पुस्तिका परीक्षार्थी अपने साथ ले जा सकते हैं।
10. इस प्रश्न पुस्तिका में निम्न भाग होंगे :-  
भाग - I 75 अंक  
लेखा संबंधी ज्ञान  
भाग - II 75 अंक  
कम्प्यूटर संबंधी ज्ञान, हिन्दी भाषा, अंग्रेजी भाषा, गणित, सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, समसामयिक घटनाक्रम, खेलकूद, देश-विदेश राज्य की सामान्य जानकारी
11. यदि अंग्रेजी भाषा में कोई संदेह है तो हिन्दी भाषा को ही प्रामाणिक माना जायेगा

INSTRUCTION TO CANDIDATES

1. Immediately after getting the booklet read instructions carefully, mentioned on the front and back page of the question booklet and do not open the seal given on the question booklet, unless asked by the invigilator.
2. Write your Roll No., Answer Sheet No., in the specified places given above and put your signature.
3. Make all entries in the OMR Answer Sheet as per the given instructions otherwise Answer-Sheet will not be evaluated.
4. After Opening the seal, ensure that the Question booklet contains total no. of pages as mentioned above and printing of all the 150 questions is proper. If any discrepancy is found, inform the invigilator within 15 minutes and get the correct booklet.
5. While answering the question from the question Booklet, for each question choose the correct/most appropriate option out of four options given, as answer and darken the circle provided against that option in the OMR Answer sheet, bearing the same serial number of the question. Darken the circle only with **Black or Blue ball point pen**.
6. Darken the circle of correct answer properly otherwise answers will not be evaluated. The candidate will be fully responsible for it.
7. There are 150 objective type questions in this question booklet. 1 mark is allotted for each correct answer and ¼ mark will be deducted for each wrong answer.
8. Do not write anything anywhere in the Question booklet and the Answer-Sheet except making entries in the specified places otherwise OMR sheet will not be evaluated.
9. After completion of the examination, only OMR Answer Sheet and cover page of question booklet is to be handed over to the invigilator. Carbon copy of the Answer-Sheet and Question Booklet may be taken away by the examinee.
10. This Question Paper consists of Parts namely :-  
**PART - I** 75 Marks  
Accounts Related Knowledge  
**PART - II** 75 Marks  
Computer Related Knowledge, Hindi Language, English Language, Mathematics, General Knowledge, General Science, Current Affairs, Sports, National-International General Knowledge of State.
11. In case of any ambiguity in English version the Hindi version shall be considered authentic.

**SPACE FOR ROUGH WORK / रफ कार्य के लिये जगह**

## ACCOUNTS RELATED KNOWLEDGE

## लेखा संबंधी ज्ञान

1. The Directors of 'A' LTD. resolved to forfeit 2000 equity shares of Rs. 10 each Rs. 7.50 per share paid-up for non payment of final call of Rs. 2.50. 1000 of the forfeited shares were reissued at Rs. 6 per share. Capital Reserve Account will be credited by: -
  - A. Rs. 3500
  - B. Rs. 7500
  - C. Rs. 9000
  - D. Rs. 11000
2. Amount received from realisation firstly paid to :
  - A. Partners
  - B. Creditors of partners
  - C. Creditors of firm
  - D. None of these
3. Basis Assumptions of Accounting are :-
  - A. Separate Business entity Assumption
  - B. Going Concern Assumption
  - C. Money Measurement Assumption
  - D. All above
1. 'ए' लि. के संचालकों ने 10 रु. वाले 2000 समता अंश, प्रति अंश 7.50 रु. दत्त, 2.50 रु. की अंतिम याचना न चुकाए जाने के कारण हरण करने का निश्चय किया। हरण किए गए अंशों में से 1000 अंश 6 रु. प्रति अंश की दर से पुनर्निर्गमित कर दिए गए। पूंजी संचय खाता क्रेडिट होगा: -
  - A. रु. 3500
  - B. रु. 7500
  - C. रु. 9000
  - D. रु. 11000
2. रोकिएकरण से प्राप्त राशि से सर्वप्रथम भुगतान होगा :
  - A. साझेदारों को
  - B. साझेदारों के लेनदारों (उत्तमर्णों) को
  - C. फर्म के लेनदारों (उत्तमर्णों) को
  - D. इनमें से कोई नहीं
3. लेखांकन की आधारभूत मान्यताएँ हैं :-
  - A. व्यापार की पृथक् इकाई की मान्यता
  - B. चालू व्यापार की मान्यता
  - C. मुद्रा मापन की मान्यता
  - D. उपरोक्त सभी

---

SPACE FOR ROUGH WORK / रफ कार्य के लिये जगह

4. Commonly which ratio is calculated in times :

- A. Profitability Ratio
- B. Activity Ratio
- C. Financial Position Ratio
- D. None of the above

5. Match the column: -

- | A             | B            |
|---------------|--------------|
| 1. Building   | (a) Debit    |
| 2. Salary     | (b) Credit   |
| 3. Left Side  | (c) Asset    |
| 4. Right side | (d) Expenses |

- A. 1(a), 2(b), 3(c), 4(d)
- B. 1(b), 2(c), 3(d), 4(a)
- C. 1(c), 2(d), 3(a), 4(b)
- D. 1(d), 2(a), 3(b), 4(c)

6. Which of the following is not accounting software :

- A. Fresh Book
- B. Adobe
- C. Xerox
- D. Online Invoices

7. The credit balance of the retiring partners current account is transferred to:

- A. Debit side of his Loan Account
- B. Debit side of his Capital Account
- C. Credit side of his Loan Account
- D. Credit side of his Capital Account

4. सामान्यतया किस अनुपात की गणना समय (गुणा) में की जाती है।

- A. लाभदायकता अनुपात
- B. क्रियाशीलता अनुपात
- C. वित्तीय स्थिति अनुपात
- D. उपर्युक्त से कोई नहीं

5. सही जोड़ी बनाइए:

- | A             | B           |
|---------------|-------------|
| 1. भवन        | (a) विकलन   |
| 2. वेतन       | (b) समाकलन  |
| 3. बायीं तरफ  | (c) संपत्ति |
| 4. दाहिनी तरफ | (d) व्यय    |

- A. 1(a), 2(b), 3(c), 4(d)
- B. 1(b), 2(c), 3(d), 4(a)
- C. 1(c), 2(d), 3(a), 4(b)
- D. 1(d), 2(a), 3(b), 4(c)

6. निम्नलिखित में से कौनसा लेखांकन साफ्टवेयर नहीं है।

- A. Fresh Book
- B. Adobe
- C. Xerox
- D. Online Invoices

7. अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार के चालू खाते का क्रेडिट (समाकलन) शेष अन्तरित किया जाता है:

- A. उसके ऋण खाते के डेबिट पक्ष में
- B. उसके पूँजी खाते के डेबिट पक्ष में
- C. उसके ऋण खाते के क्रेडिट पक्ष में
- D. उसके पूँजी खाते के क्रेडिट पक्ष में

---

SPACE FOR ROUGH WORK / रफ कार्य के लिये जगह

- |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>8. A large amount spent on special advertisement is :</p> <p>A. Capital expenditure</p> <p>B. Revenue expenditure</p> <p>C. Revenue Loss</p> <p>D. Diferred Revenue expenditure</p>                                                                                                  | <p>8. बड़ी मात्रा में किया गया विशेष विज्ञापन व्यय है।</p> <p>A. पूँजीगत व्यय</p> <p>B. आगम व्यय</p> <p>C. आगम हानि</p> <p>D. आस्थगित आगम व्यय</p>                                                                                                                    |
| <p>9. A credit item of Rs. 200 has been debited in 'Ram' Account, Correct it:</p> <p>A. Ram account will be credited by Rs. 200</p> <p>B. Ram account will be debited by Rs. 100</p> <p>C. Ram account will be credited by Rs. 400</p> <p>D. Ram account will be debited by Rs. 200</p> | <p>9. 200 रु का एक क्रेडिट मद राम के खाते में डेबिट कर दिया गया, खाता सही किजिए:-</p> <p>A. राम का खाता 200 रु से क्रेडिट होगा</p> <p>B. राम का खाता 100 रु से डेबिट होगा</p> <p>C. राम का खाता 400 रु से क्रेडिट होगा</p> <p>D. राम का खाता 200 रु से डेबिट होगा</p> |
| <p>10. Indian Accounting Standards are issued by -</p> <p>A. Reserve Bank of India</p> <p>B. Central Government</p> <p>C. State Government</p> <p>D. Institute of Chartered Accountant of India</p>                                                                                     | <p>10. भारतीय लेखांकन मानकों को जारी करता है -</p> <p>A. भारतीय रिजर्व बैंक</p> <p>B. केन्द्रिय सरकार</p> <p>C. राज्य सरकार</p> <p>D. भारतीय चार्टर्ड लेखाकार संस्थान</p>                                                                                             |
| <p>11. In India, the Board of Accounting standard was set up in the year.</p> <p>A. year 1972</p> <p>B. year 1977</p> <p>C. year 1956</p> <p>D. year 1932</p>                                                                                                                           | <p>11. भारत में लेखांकन प्रमाण बोर्ड का गठन कब किया गया।</p> <p>A. सन् 1972</p> <p>B. सन् 1977</p> <p>C. सन् 1956</p> <p>D. सन् 1932</p>                                                                                                                              |

---

**SPACE FOR ROUGH WORK / रफ कार्य के लिये जगह**

12. The position of club at the beginning of an accounting year was as follow :

Assets ₹ 37,180

and subscription received in advance ₹ 5,000

The opening capital fund is :

- A. ₹ 32,180
- B. ₹ 37,180
- C. ₹ 42,180
- D. ₹ 5,000

13. Current Ratio 2.7:1

Quick Ratio 1.8:1

Current Liabilities ₹ 60,000

value of stock is :

- A. ₹ 60,000
- B. ₹ 54,000
- C. ₹ 1,08,000
- D. ₹ 1,62,000

14. Direct – expenses are recorded in :

- A. Trading Account
- B. Profit & Loss Account
- C. Balance Sheet
- D. All of these

12. किसी लेखांकन वर्ष के प्रारम्भ में एक क्लब की स्थिति निम्नानुसार थी:

सम्पत्तियाँ ₹ 37,180

तथा अग्रिम प्राप्त अंशदान ₹ 5,000

प्रारंभिक पूँजी कोष है।

- A. ₹ 32,180
- B. ₹ 37,180
- C. ₹ 42,180
- D. ₹ 5,000

13. चालु अनुपात 2.7:1

त्वरित अनुपात 1.8:1

चालू दायित्व 60,000 ₹

स्टॉक का मूल्य होगा :

- A. 60,000 ₹
- B. 54,000 ₹
- C. 1,08,000 ₹
- D. 1,62,000 ₹

14. प्रत्यक्ष व्यय लिखे जाते हैं:

- A. व्यापार खाता
- B. लाभ : हानि खाता
- C. चिह्न
- D. ये सभी

---

SPACE FOR ROUGH WORK / रफ कार्य के लिये जगह

15. The amount due to retiring partner if not paid immediately is transferred to :
- Current Account
  - Bad – debts Account
  - Loan Account
  - Bad – debts reserve account
16. In calculation of depreciation according to Reducing Balance method, the assets purchased during the year, the depreciation will be charged for the whole year if with the rate of depreciation -
- Percent word is added
  - Per annum word is added
  - Percent word is not added
  - Per annum word is not added
17. Joint Venture Account is: -
- Salary Account
  - Real Account
  - Nominal Account
  - PPP Account
18. How many column are in Three column Cash Book -
- 12
  - 14
  - 10
  - 16
15. किसी अवकाश ग्रहण करनेवाले साझेदार को देय राशि का यदि तुरन्त भुगतान नहीं किया जाता है तो उसे निम्न में अन्तरित कर देते हैं:
- चालू खातों में
  - अशोध्य ऋण खाते में
  - ऋण खातों में
  - अशोध्य ऋण संचय खाते में
16. क्रमागत शेष पद्धति से हास लगाते समय वर्ष के मध्य खरीदी गयी सम्पत्ति पर सम्पूर्ण वर्ष का हास ही लगाना चाहिये, यदि हास की दर के साथ -
- प्रतिशत शब्द जुड़ा हो
  - प्रतिवर्ष शब्द जुड़ा हो
  - प्रतिशत शब्द न जुड़ा हो
  - प्रतिवर्ष शब्द न जुड़ा हो
17. संयुक्त साहस खाता है: -
- वेतन खाता
  - वास्तविक खाता
  - नाममात्र का खाता
  - पी. पी. पी. खाता
18. त्रिस्तम्भी रोकड़ बही में कितने कालम होते हैं -
- 12
  - 14
  - 10
  - 16

---

**SPACE FOR ROUGH WORK / रफ कार्य के लिये जगह**

19. 'A', 'B' and 'C' share profits in the ratio of 1:3:3. If 'B' retires from the business, the profit sharing ratio of 'A' and 'C' will be :

- A. 1:2
- B. 2:3
- C. 1:3
- D. None of these

20. The Secret Reserve will be shown in :

- A. Profit & Loss Account
- B. Profit & Loss Appropriation A/c
- C. Balance Sheet
- D. None of these

21. Which account is related to Unexpired Insurance?

- A. Personal Account
- B. Real Account
- C. Nominal Account
- D. None of above

22. Unclaimed dividend is always shown: -

- A. In Profit & Loss Statement
- B. In Profit & Loss Appropriation Account
- C. In Asset side of the Balance-Sheet
- D. In equity and liabilities side of the Balance sheet

19. 'ए', 'बी' एवं 'सी' लाभ को 1:3:3 के अनुपात में बांटते हैं। यदि 'बी' व्यवसाय से अवकाश ग्रहण करता है तो 'ए' एवं 'सी' का लाभ विभाजन अनुपात होगा।

- A. 1:2
- B. 2:3
- C. 1:3
- D. इनमें से कोई नहीं

20. गुप्त संचय दर्शाया जायेगा :

- A. लाभ : हानि लेखा में
- B. लाभ – हानि विनियोजन लेखा में
- C. चिट्ठे में
- D. इनमें से कोई नहीं

21. असमाप्त बीमा का सम्बन्ध किस खाता से है?

- A. व्यक्तिगत खाता
- B. वास्तविक खाता
- C. नाममात्र के खाते
- D. उपरोक्त में से कोई नहीं

22. अयाचित लाभांश हमेशा दर्शाया जाएगा :-

- A. लाभ-हानि विवरण में
- B. लाभ-हानि विनियोजन विवरण में
- C. चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में
- D. चिट्ठे के समता एवं दायित्व पक्ष में

---

SPACE FOR ROUGH WORK / रफ कार्य के लिये जगह

23. If a company issued equity shares of Rs. 1,00,000 at a Premium of 10% How much money can be used to redeem the preference shares.
- A. Rs. 1,10,000  
B. Rs. 90,000  
C. Rs.1,20,000  
D. Rs. 1,00,000
24. Preparing Bank reconciliation statement is essential for banks?
- A. Essential  
B. Essential to correct the errors  
C. Essentials for safety and actual position of account holder  
D. Above all
25. Bank charges and interest are recorded in :
- A. Cash Column  
B. Discount Column  
C. L/F Column  
D. Bank Column
26. The difference of Trial Balance is transferred to -
- A. Capital Account  
B. Balance Sheet  
C. Suspense Account  
D. Profit and Loss Account
23. यदि एक कंपनी ने 1,00,000 रु. के समता अंशों का निर्गमन 10% प्रब्याजी पर किया हो, तो कितनी राशि का उपयोग पूर्वाधिकार अंशों के शोधन में होगा।
- A. 1,10,000 रु.  
B. 90,000 रु.  
C. 1,20,000 रु.  
D. 1,00,000 रु.
24. बैंक समाधान विवरण बनाना बैंको के लिए आवश्यक है?
- A. आवश्यक है  
B. त्रुटियों को ठीक करने के लिए आवश्यक है  
C. खाताधारी की रक्षा एवं सही स्थिति के लिए आवश्यक है  
D. उपरोक्त सभी
25. बैंक चार्ज एवं ब्याज का लेखा होगा:
- A. रोकड़ खानें में  
B. अपहार खानें में  
C. खाता/पृ. खानें में  
D. बैंक खानें में
26. तलपट के अन्तर को अन्तरित किया जाता है-
- A. पूँजी खाता में  
B. चिट्ठे में  
C. उचन्त / संदेह खाता में  
D. लाभ : हानि खाता में

---

SPACE FOR ROUGH WORK / रफ कार्य के लिये जगह

27. Purchase of building for cash: -
- A. Decreases total liabilities
  - B. Total assets remains unchanged
  - C. Increases total liabilities
  - D. Decreases total Assets

28. Investment can be :

- A. Current Assets
- B. Fixed Assets
- C. Intangible Assets
- D. Either A or B

29. Which of the following is a Nominal Account

- A. Interest A/c
- B. Outstanding Interest A/c
- C. Accrued Interest A/c
- D. Prepaid Interest A/c

30. According to going concern concept, a business entity is assumed to have –

- A. A long life
- B. A short life
- C. A very short life
- D. A definite life

31. Surrender value of Joint Life Insurance Policy are shown in:

- A. Profit & Loss A/c
- B. Profit & Loss Appropriation A/c
- C. Assets side of Balance Sheet
- D. Liabilities side of Balance Sheet

27. भवन का नकद में क्रय: -

- A. कुल दायित्व घटते हैं
- B. कुल संपत्तियां अपरिवर्तित रहती हैं
- C. कुल दायित्व बढ़ते हैं
- D. कुल संपत्तियां घटती हैं

28. विनियोग हो सकता है।

- A. चालू सम्पत्ति
- B. स्थायी सम्पत्ति
- C. अदृश्य सम्पत्ति
- D. A या B कुछ भी

29. इनमें से कौनसा एक नाममात्र का खाता है।

- A. ब्याज खाता
- B. अदत्त ब्याज खाता
- C. उपार्जित ब्याज खाता
- D. पूर्वस्व ब्याज खाता

30. चालू व्यवसाय अवधारणा के अनुसार यह माना जाता है कि व्यवसाय का अस्तित्व –

- A. दीर्घकालीन जीवन होगा
- B. अल्पकालीन जीवन होगा
- C. अति अल्पकालीन जीवन होगा
- D. निश्चित जीवन होगा

31. संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी का समर्पण मूल्य दर्शाया जाता है

- A. लाभ हानि खाते में
- B. लाभ हानि विनियोजन खाता में
- C. चिट्ठे के सम्पत्ति पक्ष में
- D. चिट्ठे के दायित्व पक्ष में

---

SPACE FOR ROUGH WORK / रफ कार्य के लिये जगह

32. The Balance of Cash Book is always :-
- Debit
  - Credit
  - Debit or Credit
  - None of these
33. The Balance of Sinking Fund Investment Account after the realisation of investments is transferred to:
- Profit & Loss Account
  - Profit & Loss Appropriation Account
  - Debenture Account
  - Sinking Fund Account
34. In practice, share capital of a company means :
- Authorised Capital
  - Issued Capital
  - Subscribed Capital
  - Paid – up Capital
35. A transaction must hold the following properties :
- Only Atomic
  - Only Atomic and consistency
  - Only Atomicity, consistency and durability
  - Atomicity, consistency, Isolation and durability
32. रोकड़ पुस्तक का शेष हमेशा होगा।
- विकलन
  - समाकलन
  - विकलन या समाकलन
  - इनमें से कोई नहीं
33. विनियोगों के नकदीकरण (वसुली) के पश्चात् सिंकिंग फण्ड विनियोग खाता का शेष अन्तरित होता है:
- लाभ हानि खाता
  - लाभ हानि विनियोजन खाता
  - ऋण पत्र खाता
  - सिंकिंग फण्ड खाता
34. वास्तव में कम्पनी पूँजी से आशय है।
- अधिकृत पूँजी
  - निर्गमित पूँजी
  - मांगी गई या अभियाचित पूँजी
  - परिदत्त या चुकता पूँजी
35. एक लेन देन में निम्नलिखित गुण जरूर होने चाहिए।
- Only Atomic
  - Only Atomic and consistency
  - Only Atomicity, consistency and durability
  - Atomicity, consistency, Isolation and durability

---

**SPACE FOR ROUGH WORK / रफ कार्य के लिये जगह**

36. Goods sent on consignment is written in Trading Account as-
- A. On Cost Price
  - B. On Sales Price
  - C. On Market Price
  - D. On Mutual Understanding

37. According to SEBI guidelines a company will have to create debenture redemption reserve equivalent to what percentage of debentures redeemed.
- A. 40%
  - B. 50%
  - C. 70%
  - D. 100%

38. Which of the following is not a cash out-flow:
- A. Increase in creditors
  - B. Increase in debtors
  - C. Increase in stock
  - D. Increase in prepaid exp.

39. Analysis of Financial Statement involves :
- A. Trading A/c
  - B. Profit & Loss A/c
  - C. Balance Sheet
  - D. All

36. प्रेषण पर भेजा गया माल व्यापार खाते में लिखा जाता है -
- A. लागत मूल्य पर
  - B. विक्रय मूल्य पर
  - C. बाजार मूल्य पर
  - D. आपसी समझौते पर

37. 'सेबी' के निर्देशों के अनुसार शोधन के पूर्व ऋणपत्रों की राशि का कितने प्रतिशत से ऋणपत्र शोधन कोष का निर्माण करना होगा।
- A. 40%
  - B. 50%
  - C. 70%
  - D. 100%

38. निम्नलिखित में से कौनसा रोकड़ बहिर्वाह नहीं है।
- A. लेनदारों में वृद्धि
  - B. देनदारों में वृद्धि
  - C. रहतिया में वृद्धि
  - D. पूर्वदत्त बयों में वृद्धि

39. वित्तीय विवरणों के विश्लेषण में शामिल होता है।
- A. व्यापारिक खाता
  - B. लाभ : हानि खाता
  - C. आर्थिक चिह्न
  - D. सभी

---

SPACE FOR ROUGH WORK / रफ कार्य के लिये जगह

- |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>40. Bad debts related to:</p> <p>A. Creditors</p> <p>B. Debtors</p> <p>C. Cash sales</p> <p>D. Above all</p>                                                                                                                                                                    | <p>40. डूबत ऋण का सम्बन्ध होता है :</p> <p>A. लेनदारों से</p> <p>B. देनदारों से</p> <p>C. नकद विक्रय से</p> <p>D. उपरोक्त सभी से</p>                                                                                                                           |
| <p>41. Sale of Goods on credit is recorded in :</p> <p>A. Cash Book</p> <p>B. Sales Book</p> <p>C. Sales Return Book</p> <p>D. Journal</p>                                                                                                                                         | <p>41. उधार बेचे गये माल का लेखा किया जाता है -</p> <p>A. रोकड़ पुस्तक में</p> <p>B. विक्रय पुस्तक में</p> <p>C. विक्रय वापसी पुस्तक में</p> <p>D. जर्नल (पंजी) में</p>                                                                                        |
| <p>42. Public Limited Companies can not issue:</p> <p>A. Redeemable Preference Share</p> <p>B. Irredeemable Preference Share</p> <p>C. Guaranteed Preference Share</p> <p>D. Non Voting Rights Share</p>                                                                           | <p>42. पब्लिक लिमिटेड कम्पनियाँ निर्गमित नहीं कर सकती</p> <p>A. विमोचनशील पूर्वाधिकार अंश</p> <p>B. अविमोचन शील पूर्वाधिकार अंश</p> <p>C. प्रत्याभूतित पूर्वाधिकार अंश</p> <p>D. विना मताधिकार वाले अंश</p>                                                    |
| <p>43. In preparing the Accounts of Non – Trading Institutions the ‘Endowment Fund’ is shown as -</p> <p>A. Assets side of Balance Sheet</p> <p>B. Liabilities side of Balance Sheet</p> <p>C. Expenditure side of Income and Expenditure Accounts</p> <p>D. None of the above</p> | <p>43. गैर व्यापारिक संस्थाओं के खाते बनाते समय ‘समर्पित कोष’ को दर्शाया जाता है -</p> <p>A. स्थिति विवरण के सम्पत्ति पक्ष की तरफ</p> <p>B. स्थिति विवरण के दायित्व पक्ष की तरफ</p> <p>C. आय – व्यय खाते में व्यय की तरफ</p> <p>D. उपरोक्त में से कोई नहीं</p> |

---

**SPACE FOR ROUGH WORK / रफ कार्य के लिये जगह**

44. From the following items, which item will be shown in both income – expenditure and receipt-payment account.
- Prepaid salary
  - Fixed deposit in the Bank
  - Cash purchase of Land
  - Cash payment of Rent
45. 'A' & 'B' are partners in a firm sharing profit – loss in the ratio of 2:1. They decided to share profit – loss equally. A's sacrificing ratio and B's gaining ratio is -
- $\frac{1}{3}$  and  $\frac{1}{3}$
  - $\frac{2}{3}$  and  $\frac{1}{3}$
  - $\frac{1}{3}$  and  $\frac{2}{3}$
  - None of these
46. Prepaid expenses appearing in the Trial Balance will figure in
- Trading Account
  - Profit & Loss Account
  - Trading Account & Profit & Loss A/c
  - Balance Sheet
47. Outstanding Expenses in the Trial Balance will be shown in :
- Liabilities side of Balance Sheet
  - Debit side of Trading Account
  - Debit side of Profit and Loss Account
  - None of these
44. निम्न में से कौन सी मद आय – व्यय एवं प्राप्ति - भुगतान दोनों खातों में दर्शायी जायेगी।
- पूर्वदत्त वेतन
  - बैंक में स्थायी जमा
  - भूमि का नकद क्रय
  - किराया का नकद भुगतान
45. 'अ', 'ब' एक फर्म के साझेदार हैं। उनका लाभ – हानि अनुपात 2:1 है। उन्होंने लाभों को समान अनुपात में बाँटने का निर्णय लिया। 'अ' का त्याग अनुपात एवं, 'ब' का लाभ प्राप्ति अनुपात होगा -
- $\frac{1}{3}$  एवं  $\frac{1}{3}$
  - $\frac{2}{3}$  एवं  $\frac{1}{3}$
  - $\frac{1}{3}$  एवं  $\frac{2}{3}$
  - इनमें से कोई नहीं
46. तलपट में लिखा पूर्वदत्त व्यय का लेखा किया जाएगा-
- व्यापार खाते
  - लाभ - हानि खाते
  - व्यापार खाते एवं लाभ – हानि खाते
  - स्थिति विवरण (चिट्ठा)
47. परीक्षा सूची में उल्लेखित अदत्त व्यय दर्शाया जाएगा।
- चिट्ठे के दायित्व पक्ष में
  - व्यापार खाता के डेबिट में
  - लाभ-हानि खाता के डेबिट में
  - इनमें से कोई नहीं

---

**SPACE FOR ROUGH WORK / रफ कार्य के लिये जगह**

48. The basic function of Financial Accounting is to :
- record all business transaction
  - interpret financial data
  - assist the management in performing functions effectively
  - None of the above
49. The name of insolvent partner in the case of Garner Vs Murray was
- Wilkins
  - Garner
  - Murray
  - Joyas
50. Ascertain cost of goods sold from the following figures :
- Opening Stock ₹ 3,700  
Purchases ₹ 20,800  
Closing stock ₹ 2,500
- ₹ 23,300
  - ₹ 20,800
  - ₹ 22,000
  - None of these
51. The credit balance of suspense account entered in the:
- Assets side of Balance Sheet
  - Liabilities side of Balance Sheet
  - Assets and liabilities side of Balance Sheet
  - Less in capital in the liabilities side
48. वित्तीय लेखांकन का मूल कार्य है:
- सभी व्यापार लेनदेन रिकॉर्ड करें
  - वित्तीय डेटा की व्याख्या करें
  - कार्यों को प्रभावी ढंग से करने में प्रबंधन की सहायता करना
  - उपरोक्त में से कोई नहीं
49. गार्नर बनाम् मुर्रे विवाद में दिवालिया साझेदार का नाम था-
- विल्किंस
  - गार्नर
  - मुर्रे
  - जॉयस
50. निम्नांकित सूचनाओं से बेचे गये माल की लागत ज्ञात कीजिए:
- प्रारम्भिक स्क्रंध ₹ 3,700  
क्रय ₹ 20,800  
अन्तिम स्क्रंध ₹ 2,500
- ₹ 23,300
  - ₹ 20,800
  - ₹ 22,000
  - इनमें से कोई नहीं
51. उच्चत खता की क्रेडिट बाकी लिखी जाती है:
- चिट्ठा के सम्पति पक्ष में
  - चिट्ठा के दायित्व पक्ष में
  - चिट्ठा के दायित्व एवं सम्पति पक्ष में
  - दायित्व में पूँजी से घटाकर

---

**SPACE FOR ROUGH WORK / रफ कार्य के लिये जगह**

52. Under Annuity method, The amount of depreciation is :

- A. Increasing every year
- B. Decreasing every year
- C. Fixed for all the year
- D. None of these

53. The meaning of Double entry system is?

- A. Write transaction in Twice
- B. Write transaction in Two form
- C. Write transaction in Two concern
- D. This is latin word

54. Which of the assets given below are fixed?

- A. Carts
- B. Cash
- C. Stock
- D. Debtor

55. If dividend on Preference shares has been declared but not paid. On liquidation dividend is paid as:

- A. Arrears of dividend
- B. Debts
- C. Preference Creditors
- D. None of the above

52. वार्षिकी पद्धति में ञ्हास की राशि :

- A. प्रति वर्ष बढ़ती है
- B. प्रति वर्ष घटती है
- C. प्रति वर्ष स्थायी रहती है
- D. इनमें से कोई नहीं

53. दोहरा लेखा प्रणाली का आशय है?

- A. सौदे दो बार लिखना।
- B. सौदे दो रूपों में लिखना।
- C. सौदे दो व्यापारों में लिखना।
- D. यह लेटिन शब्द है।

54. नीचे दी गई कौनसी संपत्ति स्थायी है?

- A. गाड़ी
- B. रोकड़
- C. स्टॉक
- D. देनदार

55. जब पूर्वाधिकार अंशों पर लाभांश घोषित किया जा चुका है किन्तु भुगतान नहीं किया गया है, तो समापन पर लाभांश का भुगतान किया जाता है:

- A. लाभांश की वकाया राशि के रूप में
- B. ऋण के रूप में
- C. पूर्वाधिकार लेनदारों के रूप में
- D. उपर्युक्त में से कोई नहीं

---

SPACE FOR ROUGH WORK / रफ कार्य के लिये जगह

56. The Balance of which column is not calculated in three columnar cash book
- Cash Column
  - Bank Column
  - Discount Column
  - None of these
57. 'A' and 'B' are partners in a firm in the ratio of 2:3. They admit 'C' in the firm on the condition that in future they will distribute profits equally. The ratio of sacrifice by the old partners will be :
- 2:3
  - 1:1
  - 1:4
  - 4:1
58. The Sub-division of goods account is :
- Machinery Account
  - Capital Account
  - Purchases Account
  - Cash Account
59. Profit realised from revaluation is credited if the partner's capital accounts are maintained in fixed method.
- In Partner's capital accounts
  - In Partner's loan account
  - In Partner's current accounts
  - None of these
56. तीन खानों वाली रोकड़ बही में किस स्तम्भ का शेष नहीं निकाला जाता है।
- रोकड़ स्तम्भ
  - बैंक स्तम्भ
  - बट्टा स्तम्भ
  - इनमें से कोई नहीं
57. 'ए' एवं 'ब' एक फर्म में 2:3 के अनुपात में साझेदार हैं वे 'सी' को फर्म में इस शर्त पर शामिल करते हैं कि भविष्य में सभी साझेदार लाभ – हानि बराबर-बराबर बाँटेंगे। पुराने साझेदारों द्वारा त्याग का अनुपात होगा :
- 2:3
  - 1:1
  - 1:4
  - 4:1
58. वस्तु या माल खाता का ही उप-विभाग है।
- मशीनरी खाता
  - पूँजी खाता
  - क्रय खाता
  - रोकड़ खाता
59. साझेदारों के पूँजी खाते स्थायी होने पर पुनर्मूल्यांकन से लाभ की राशि क्रेडिट (समाकलित) की जाती है।
- साझेदारों के पूँजी खातों में
  - साझेदारों के ऋण खातों में
  - साझेदारों के चालू खातों में
  - इनमें से कोई नहीं

---

SPACE FOR ROUGH WORK / रफ कार्य के लिये जगह

60. Credit Balance of Cash book indicates:-

- A. Bank Balance
- B. Cash at bank
- C. Bank Overdraft
- D. None of these

61. The base of Generally Accepted Accounting Principles is-

- A. Assumptions
- B. Rules
- C. Standard
- D. Principle

62. Match the column: -

A

- 1. Increase in Assets & Liabilities
- 2. Decrease in Assets & Liabilities
- 3. Increase in Capital & Assets
- 4. Decrease in Capital & Assets

B

- (a) Investment of capital in business
- (b) Drawing or Expenses
- (c) Payment of Liabilities
- (d) Credit Purchase of asset

- A. 1(a), 2(b), 3(c), 4(d)
- B. 1(b), 2(c), 3(d), 4(a)
- C. 1(c), 2(d), 3(a), 4(b)
- D. 1(d), 2(c), 3(a), 4(b)

60. रोकड़ पुस्तक का समाकलन शेष दर्शाता है।

- A. बैंक शेष
- B. बैंक में रोकड़
- C. बैंक अधिविकर्ष
- D. इनमें से कोई नहीं

61. सामान्यतया स्वीकृत लेखांकन सिद्धांत का आधार है-

- A. मान्यताएँ
- B. नियम
- C. प्रमाण
- D. सिद्धांत

62. सही जोड़ी बनाइए: -

A

- 1. संपत्तियों एवं दायित्वों में वृद्धि
- 2. संपत्तियों एवं दायित्वों में कमी
- 3. पूंजी एवं संपत्तियों में वृद्धि
- 4. पूंजी एवं संपत्तियों में कमी

B

- (a) व्यवसाय में पूंजी का विनियोग
- (b) आहरण या व्यय
- (c) दायित्वों का भुगतान
- (d) संपत्तियों का उधार क्रम

- A. 1(a), 2(b), 3(c), 4(d)
- B. 1(b), 2(c), 3(d), 4(a)
- C. 1(c), 2(d), 3(a), 4(b)
- D. 1(d), 2(c), 3(a), 4(b)

---

SPACE FOR ROUGH WORK / रफ कार्य के लिये जगह

63. Bank clearing house is for:-
- A. For deposit amount in the Bank
  - B. To keep safely the amount of Bank
  - C. For counting and keeping of amount in the Bank
  - D. To show the true balance and regulating the transactions of related Bank

64. The relationship of partners with the firm is :
- A. As manager
  - B. As Servant
  - C. As Agent
  - D. As Monopolist

65. Balance of Personal Accounts will be shown :
- A. In Trading Account
  - B. In Profit & Loss Account
  - C. In Trading and Profit & Loss Account
  - D. In Balance Sheet

66. Preference share holders are -
- A. Customers of the Company
  - B. Creditors of the Company
  - C. Owner of the Company
  - D. None of these

63. बैंक समाशोधन गृह होते हैं:
- A. बैंको में राशि जमा करने के लिए
  - B. बैंको की राशि सुरक्षित रखने के लिए
  - C. बैंको में राशि गिनकर रखने के लिए
  - D. विभिन्न बैंको के लेनदेन को नियमित एवं शेष की स्थिति बताने के लिए

64. साझेदार का फर्म से सम्बन्ध होता है।
- A. प्रबन्धक का
  - B. सेवक का
  - C. अभिकर्ता का
  - D. एकाधिकारी का

65. व्यक्तिगत खातों के आधिक्य का उल्लेख होगा:
- A. व्यापार खाता में
  - B. लाभ-हानि खाता में
  - C. व्यापार एवं लाभ-हानि खाता में
  - D. चिट्ठा में

66. पूर्वाधिकार अशंधारी है -
- A. कम्पनी के ग्राहक
  - B. कम्पनी के लेनदार
  - C. कम्पनी के स्वामी
  - D. इनमें से कोई नहीं

---

SPACE FOR ROUGH WORK / रफ कार्य के लिये जगह

67. Bank Reconciliations statement meaning is?
- Solving the problems of Bank
  - Remove the problems of Bank employees
  - Statement of Manager
  - Reconciliations of various Bank account
68. Wages of new machinery will be shown in :
- Wages Account
  - Machinery Account
  - Cash Account
  - Expenses Account
69. When Bills receivable is discounted by co-venturer, cost of discount is debited to: -
- Discount Account
  - Co-Venturer's Account
  - Joint Venture Account
  - Profit / Loss Account
70. Opening balance of Cash book is shown:
- On the debit side of Receipts and Payment Account
  - On the credit side of Receipts and Payment Account
  - On the debit side of Income and Expenditure Account
  - On the credit side of Income and Expenditure Account

67. बैंक समाधान विवरण का आशय है?
- बैंक की समस्याओं का समाधान करना
  - बैंक कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान करना
  - प्रबन्धक का विवरण पत्र
  - बैंक के विभिन्न खातों का मिलान करना
68. नई मशीनरी की मजदूरी दर्शायी जाएगी।
- मजदूरी खाता में
  - मशीनरी खाता में
  - रोकड़ खाता में
  - व्यय खाता में
69. जब सह-साहसी द्वारा प्राप्य बिल का बट्टा कराया जाता है, तो बट्टा की लागत से डेबिट करते हैं: -
- छूट खाता
  - सह-साहसी खाता
  - संयुक्त साहस खाता
  - लाभ/हानि खाता
70. रोकड़ पुस्तक का प्रारंभिक शेष लिखा जाता है -
- प्राप्ति भुगतान खाते के डेबिट पक्ष में
  - प्राप्ति भुगतान खाते के क्रेडिट पक्ष में
  - आय व्यय खाते के डेबिट पक्ष में
  - आय व्यय खाते के क्रेडिट पक्ष में

---

**SPACE FOR ROUGH WORK / रफ कार्य के लिये जगह**

71. When goods are purchased for joint venture the account to be debited is: -
- Purchase account
  - Joint venture account
  - Co-venturer's account
  - Goods account
72. The Journal Entry to record, the sale of services on credit is :
- Debit to debtors and credit to capital
  - Debit to cash and credit to debtors
  - Debit to fees income and credit to debtors
  - Debit to debtors and credit to fees income
73. Minimum number of co-venturer's in a joint venture are: -
- 2
  - 4
  - 8
  - 9
74. In which year International Accounting Committee was formed
- 1993
  - 1974
  - 1956
  - 1973
75. The balances of all assets are transferred to realisation A/cs in firms dissolution :
- On purchase price
  - On Book value
  - On market price
  - Which is more out of them

71. जब संयुक्त साहस खाता के लिए माल खरीदा जाता है, तो नाम किया जाता है: -
- क्रय खाता को
  - संयुक्त साहस खाता को
  - सह-साहसी खाता को
  - माल खाता को
72. सेवाओं के उधार विक्रय पर पंजी में लेखा होगा:-
- देनदार नामे एवं पूँजी जमा
  - रोकड़ नामे एवं देनदार जमा
  - फीस से आय नामे एवं देनदार जमा
  - देनदार नामे एवं फीस से आय जमा
73. एक संयुक्त साहस में सह-साहसियों की न्यूनतम् संख्या होगी: -
- 2
  - 4
  - 8
  - 9
74. अंतर्राष्ट्रीय लेखांकन प्रमाण समिति का गठन किस वर्ष हुआ था।
- 1993
  - 1974
  - 1956
  - 1973
75. फर्म के विघटन पर सभी सम्पत्तियों का शेष रोकीकरण या वसूली खाता में हस्तान्तरित कर दिया जाता है।
- क्रय मूल्य पर
  - पुस्त मूल्य पर
  - बाजार मूल्य पर
  - इनमें से जो अधिक हो

---

SPACE FOR ROUGH WORK / रफ कार्य के लिये जगह

## COMPUTER RELATED KNOWLEDGE

## कम्प्यूटर संबंधी ज्ञान

76. DVD is an example of a (n) -----  
A. Hard disk  
B. Optical disc  
C. Output device  
D. Solid-state storage device
77. The first network that planted the seeds of internet was-  
A. ARPANET  
B. NSFnet  
C. Vnet  
D. Both (A) and (B)
78. The information processing cycle of a computer consists of mainly ----- parts.  
A. One                      B. Two  
C. Two                      D. Four
79. What is another name for a dot-matrix printer?  
A. Page printer  
B. Non-impact printer  
C. Impact printer  
D. Spray printer
80. Which one of the following groups consist of only output devices?  
A. Scanner, Printer, Monitor  
B. Keyboard, Printer, Monitor  
C. Mouse, Printer, Monitor  
D. Plotter, Printer, Monitor

76. DVD ----- का एक उदाहरण हैं -  
A. हार्ड डिस्क  
B. ऑप्टिकल डिस्क  
C. आउटपुट डिवाइस  
D. सॉलिड-स्टेट स्टोरेज डिवाइस
77. इन्टरनेट के बीज का पहला नेटवर्क कौन सा था?  
A. ARPANET  
B. NSFnet  
C. Vnet  
D. दोनों (A) और (B)
78. कम्प्यूटर के सूचना प्रसंस्करण चक्र में मुख्य रूप से ----- भाग होते हैं।  
A. एक                      B. दो  
C. तीन                      D. चार
79. डॉट-मैट्रिक्स प्रिंटर के लिये दूसरा नाम क्या है?  
A. पेज प्रिंटर  
B. नॉन-इम्पैक्ट प्रिंटर  
C. इम्पैक्ट प्रिंटर  
D. स्प्रे प्रिंटर
80. निम्नलिखित में से किस समूह में केवल आउटपुट डिवाइस हैं?  
A. स्कैनर, प्रिंटर, मॉनीटर  
B. कीबोर्ड, प्रिंटर, मॉनीटर  
C. माउस, प्रिंटर, मॉनीटर  
D. प्लॉटर, प्रिंटर, मॉनीटर

---

SPACE FOR ROUGH WORK / रफ कार्य के लिये जगह

81. Which one of the following is the fastest and expensive computer?
- A. Personal Computers
  - B. Supercomputers
  - C. Laptops
  - D. Notebooks
82. Which one of the following section does not exists in a slide layout of Power point presentation?
- A. Titles
  - B. Animations
  - C. Lists
  - D. Charts
83. Which of the following is a class of computer threat?
- A. Phishing
  - B. Soliciting
  - C. DoS attack
  - D. Stalking
84. What is the use of computer in a hospital?
- A. In Patient admission
  - B. To keep patient records
  - C. In patient diagnosis
  - D. All of the above
85. The E-mail component of internet Explorer is called.
- A. Message box
  - B. Outlook Express
  - C. Messenger Mail box
  - D. None of above

81. इनमें से कोई एक तेज और महंगा कम्प्यूटर है?
- A. पर्सनल कम्प्यूटर
  - B. सुपर कम्प्यूटर
  - C. लैपटॉप
  - D. नोटबुक
82. निम्नलिखित में से कौन सा खंड पावर पॉइंट प्रस्तुति के स्लाइड लेआउट में मौजूद नहीं है?
- A. टाइटल्स
  - B. एनिमेशन्स
  - C. लिस्ट्स
  - D. चार्ट्स
83. निम्न में से कौन कम्प्यूटर श्रूट का क्लास है?
- A. Phishing
  - B. Soliciting
  - C. DoS attack
  - D. Stalking
84. अस्पताल में कम्प्यूटर का क्या उपयोग है?
- A. रोगी का प्रवेश करने के लिये
  - B. रोगी का रिकॉर्ड रखने के लिये
  - C. रोगी का निदान करने के लिये
  - D. उपरोक्त सभी
85. इन्टरनेट एक्सप्लोरर का ई-मेल का भाग ----- कहलाता है।
- A. Message box
  - B. Outlook Express
  - C. Messenger Mail box
  - D. उपरोक्त में से कोई नहीं

---

SPACE FOR ROUGH WORK / रफ कार्य के लिये जगह

86. USB stands for-
- Uniform Service Bus
  - Universal Serial Bus
  - Universal Sector Buffer
  - Universal Service Bus
87. What best describes how an inkjet printer prints an image?
- One dot at a time to form a character
  - Spray painting a character
  - Striking an inked ribbon
  - Dropping ink onto the paper
88. Unsolicited commercial e-mail is known as-
- Spam
  - Malware
  - Virus
  - Spyware
89. An image can be included in -----
- Word file
  - Excel file
  - Power point file
  - All of the above
90. Which one of the following is not an operating system?
- Windows 7
  - Opera
  - Adobe
  - Solaris

86. USB का पूर्ण रूप ----- है।
- Uniform Service Bus
  - Universal Serial Bus
  - Universal Sector Buffer
  - Universal Service Bus
87. इनमें से क्या सबसे अच्छा वर्णन करता है कि एक इंकजेट प्रिंटर एक छवि को कैसे प्रिंट करता है?
- कैरेक्टर बनाने के लिये एक बार में एक डॉट
  - कैरेक्टर बनाने के लिये स्प्रे पेंटिंग
  - स्याही लगी रिबन को स्ट्राइक करना
  - कागज पर स्याही छोड़ना
88. अनचाही कमर्शियल ई-मेल ----- कहलाता है।
- Spam
  - Malware
  - Virus
  - Spyware
89. एक चित्र को ----- शामिल किया जा सकता है।
- वर्ड फाइल
  - एक्सेल फाइल
  - पॉवर पॉइंट फाइल
  - उपरोक्त सभी में
90. निम्नलिखित में से कोई एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है?
- विंडोज 7
  - ओपेरा
  - एडोब
  - सोलारिस

---

SPACE FOR ROUGH WORK / रफ कार्य के लिये जगह

91. 'तुम अपना कर्जा थोड़ा-थोड़ा करके चुका सकते हो' इस वाक्य में कौन सा क्रिया विशेषण है -  
 A. संयुक्त क्रिया विशेषण  
 B. रीतिवाचक क्रिया विशेषण  
 C. परिमाण वाचक क्रिया विशेषण  
 D. स्थानीय क्रिया विशेषण
92. 'अत्याधिक शोर होने' पर किस मुहावरे का उपयोग किया जाता है -  
 A. हो हल्ला मचाना  
 B. कान पड़ी आवाज न सुनना  
 C. आसमान सर पर उठाना  
 D. कान फाड़ना
93. 'गुरुदेव! देखो तो नया यह सिंह सोते से जागा' इसमें सही अलंकार चुनिये -  
 A. रूपकातिशयोक्ति  
 B. सम्बन्धातिशयोक्ति  
 C. चपलातिशयोक्ति  
 D. अक्रमातिशयोक्ति
94. 'करम' शब्द किस प्रकार का शब्द है -  
 A. तत्सम्  
 B. तद्भव  
 C. देशज  
 D. अरणी
95. 'किसी विषय विशेष का विशेष ज्ञाता' के लिए एक शब्द है -  
 A. निष्णात  
 B. पंडित  
 C. अधिकारी  
 D. विशेषज्ञ
96. गणों के कितने भेद हैं -  
 A. पाँच  
 B. छः  
 C. सात  
 D. आठ
97. सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए-  
 A. व्दारिका  
 B. व्दारका  
 C. व्दारीका  
 D. दवारका
98. 'बेखरके' किस समास का उदाहरण है -  
 A. कर्मधारय  
 B. व्दिगु  
 C. तत्पुरुष  
 D. अव्ययीभाव

---

SPACE FOR ROUGH WORK / रफ कार्य के लिये जगह

99. 'अंगरात, जमुहात, नहिं उठत बनै परमात' इस उदाहरण में कौन सा संचारी भाव है -

- A. व्याधि
- B. आलस्य
- C. उन्माद
- D. मद

100. नीचे चार शब्दों के समूह में से तीन शब्द पर्यायवाची हैं, एक बेमेल है। आपको बेमेल शब्द का चयन करना है -

- A. परिधान
- B. आवरण
- C. पहरावा
- D. पोशाक

---

SPACE FOR ROUGH WORK / रफ कार्य के लिये जगह

101. Fill in the Blank with correct degree of comparison.  
Lead is ----- than all the metals.  
A. Heavy  
B. More heavy  
C. Heavier  
D. Heaviest
102. Choose the correct alternative which can substitute the given phrase/sentence.  
A person who eats too much is called a -----.  
A. Glutton  
B. Omnivore  
C. Cannibal  
D. Nibbler
103. Choose the word which is most opposite in meaning to the word underlined:  
Paucity  
A. Certainty  
B. Timidity  
C. Excess  
D. Beauty
104. Select the word with the correct spelling.  
A. Heirarkial  
B. Heirarchical  
C. Hierarchical  
D. Hierarkical
105. Select the correct preposition and fill in the blank.  
She is putting the books from the bottom shelf ----- the topmost shelf.  
A. in  
B. into  
C. at  
D. onto
106. Choose the correct Plural of the word "Charity"  
A. Charitys  
B. Charities  
C. Charity  
D. Charitee
107. Choose the correct form of the narration.  
He said, "I have passed the examination"  
A. He said that he has been passed the examination.  
B. He says he passed the exam.  
C. I said she has passed the examination.  
D. He said that he had passed the examination.

---

SPACE FOR ROUGH WORK / रफ कार्य के लिये जगह

108. Choose the alternative which best expresses the meaning of the idiom/phrase that is underlined.  
I suppose she was the apple of your eye at that time.

- A. Your favourite fruit.
- B. Your favourite person.
- C. Your favourite meal.
- D. Your favourite book.

109. Fill in the Blank with the Passive form of Verb given in bracket  
The patient ----- to the ICU after the doctor's recommendation (admit)

- A. is admitted
- B. are admitted
- C. admitted
- D. have been admitted

110. Choose the correct conjunction and fill in the blank.

I sat near the lake ----- admired the beauty.

- A. but
- B. as well as
- C. for
- D. and

---

SPACE FOR ROUGH WORK / रफ कार्य के लिये जगह

## MATHEMATICS

## गणित


111. A man walking at the rate of 5 km/hr crosses a bridge in 15 minutes the length of the bridge in (meters) is-

A. 600 m  
B. 750 m  
C. 1000 m  
D. 1250 m

112. 50 is divided into two parts such that the sum of their reciprocals is  $\frac{1}{12}$ . Then the two parts will be:

A. 28, 22  
B. 35, 15  
C. 40, 10  
D. 30, 20

113. Find the value of x from the figure given below:



A. 4.0  
B. 4.2  
C. 4.8  
D. 4.9


111. एक आदमी 5 km/hr की दर से एक पुल को 15 मिनट में पार करता है तो पुल की लम्बाई (मीटर) में होगी-

A. 600 मी.  
B. 750 मी.  
C. 1000 मी.  
D. 1250 मी.

112. 50 को दो भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि उनके व्युत्क्रम का योग  $\frac{1}{12}$  होता है तो दो भाग होंगे।

A. 28, 22  
B. 35, 15  
C. 40, 10  
D. 30, 20

113. निम्न दिये गये चित्र से x की गणना करो।



A. 4.0  
B. 4.2  
C. 4.8  
D. 4.9


SPACE FOR ROUGH WORK / रफ कार्य के लिये जगह

114. Value of the given fraction will be:

$$\frac{0.7 \times 0.7 \times 0.7 + 0.5 \times 0.5 \times 0.5}{0.7 \times 0.7 - 0.7 \times 0.5 + 0.5 \times 0.5}$$

- A. 1.0  
B. 1.2  
C. 1.5  
D. 1.7

115. In the given figure, If AT = 16 cm and AB = 12 cm then value of TP will be:



- A. 8 cm  
B. 10 cm  
C. 12 cm  
D. 14 cm

116. The cost price of 19 articles is equal to the selling price of 16 articles. Then gain percent is:


- A.  $3\frac{9}{17}\%$   
B.  $15\frac{15}{19}\%$   
C.  $18\frac{3}{4}\%$   
D. 20%

114. निम्न दिये गये भिन्न का मान होगा।

$$\frac{0.7 \times 0.7 \times 0.7 + 0.5 \times 0.5 \times 0.5}{0.7 \times 0.7 - 0.7 \times 0.5 + 0.5 \times 0.5}$$

- A. 1.0  
B. 1.2  
C. 1.5  
D. 1.7

115. दिये गये चित्र में, यदि AT=16 सेमी तथा AB=12 सेमी तो TP का मान होगा।



- A. 8 सेमी  
B. 10 सेमी  
C. 12 सेमी  
D. 14 सेमी


116. यदि 19 वस्तुओं का क्रय मूल्य 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत होगा।

- A.  $3\frac{9}{17}\%$   
B.  $15\frac{15}{19}\%$   
C.  $18\frac{3}{4}\%$   
D. 20%

---

SPACE FOR ROUGH WORK / रफ कार्य के लिये जगह

117. In the given figure  $PQ = PR$  and  $\angle PRQ = 70^\circ$  then  $\angle QAR =$




- A.  $30^\circ$   
B.  $40^\circ$   
C.  $50^\circ$   
D.  $60^\circ$

118. If Rs 782 is divided in three parts in the ratio  $\frac{1}{2} : \frac{2}{3} : \frac{3}{4}$ , then first part will be:

- A. Rs 182  
B. Rs 190  
C. Rs 196  
D. Rs 204

119. By increasing the speed of a car by 10 km/hr, the time of Journey for a distance of 72 km. is reduced by 36 minutes. Then the original speed of the car is :
- A. 25 km/hr  
B. 30 km/hr  
C. 35 km/hr  
D. 40 km/hr

117. दिये गये चित्र में यदि  $PQ = PR$  तथा  $\angle PRQ = 70^\circ$  तो  $\angle QAR$  का मान होगा।



- A.  $30^\circ$   
B.  $40^\circ$   
C.  $50^\circ$   
D.  $60^\circ$

118. यदि ₹ 782 को तीन भागों में अनुपात  $\frac{1}{2} : \frac{2}{3} : \frac{3}{4}$  में बाँटा जाता है तो प्रथम भाग होगा।

- A. ₹182  
B. ₹190  
C. ₹196  
D. ₹204

119. किसी कार की गति 10 किमी/घंटा बढ़ा देने से, उसकी 72 किमी. की दूरी तय करने का समय 36 मिनट घट जाता है। तो कार की प्रारंभिक गति है।
- A. 25 किमी/घंटा  
B. 30 किमी/घंटा  
C. 35 किमी/घंटा  
D. 40 किमी/घंटा

---

SPACE FOR ROUGH WORK / रफ कार्य के लिये जगह

120. If x is 80% of y then what percent of 2x is y?

- A. 40%
- B.  $62\frac{1}{2}\%$
- C.  $66\frac{2}{3}\%$
- D. 80%

121. Rs 250 is equally divided among a certain number of children. If these were 25 children more, each would have received 50 paise less, then the number of children will be:

- A. 80
- B. 90
- C. 100
- D. 120

122. If A's income is 25% more than B's income then by how much percent B's income is less than that of A's income

- A. 15%
- B. 20%
- C. 25%
- D. 30%

120. यदि x, y का 80% है तो y, 2x का कितना प्रतिशत होगा?

- A. 40%
- B.  $62\frac{1}{2}\%$
- C.  $66\frac{2}{3}\%$
- D. 80%

121. 250 रुपये को कुछ छात्रों में बराबर से बाँटा जाता है। यदि 25 छात्र अधिक होते तो प्रत्येक छात्र को 50 पैसे कम प्राप्त होते हैं तो छात्रों की संख्या होगी।

- A. 80
- B. 90
- C. 100
- D. 120

122. यदि A की आय, B की आय से 25% अधिक है तो B की आय, A की आय से कितने प्रतिशत कम है।

- A. 15%
- B. 20%
- C. 25%
- D. 30%

---

SPACE FOR ROUGH WORK / रफ कार्य के लिये जगह

123. If Arrange the fractions in the ascending order, then the smallest fraction will be.

$$\frac{17}{18}, \frac{31}{36}, \frac{43}{45}, \frac{59}{60}$$

- A.  $\frac{17}{18}$   
B.  $\frac{31}{36}$   
C.  $\frac{43}{45}$   
D.  $\frac{59}{60}$

124. If gcd of a & 4 is 2 and gcd of b & 4 is also 2.

Then the gcd of a+b & 4 will be :

- A. 2  
B. 3  
C. 4  
D. 1

125. If  $a : b = 5 : 9$  and  $b : c = 4 : 7$ , then  $a : b : c$  will be

- A. 20 : 36 : 63  
B. 35 : 28 : 20  
C. 35 : 49 : 42  
D. None of these

123. यदि दी गई भिन्नों को बढ़ते क्रम में रखा जावे तो सबसे छोटी भिन्न होगी:

$$\frac{17}{18}, \frac{31}{36}, \frac{43}{45}, \frac{59}{60}$$

- A.  $\frac{17}{18}$   
B.  $\frac{31}{36}$   
C.  $\frac{43}{45}$   
D.  $\frac{59}{60}$

124. यदि a तथा 4 का महत्तम समापवर्तक 2 तथा b तथा 4 का भी महत्तम समापवर्तक 2 है तो a + b तथा 4 का महत्तम समापवर्तक होगा।

- A. 2  
B. 3  
C. 4  
D. 1

125. यदि  $a : b = 5 : 9$  तथा  $b : c = 4 : 7$  तब  $a : b : c$  होगा

- A. 20 : 36 : 63  
B. 35 : 28 : 20  
C. 35 : 49 : 42  
D. उपरोक्त में से कोई नहीं

---

SPACE FOR ROUGH WORK / रफ कार्य के लिये जगह

**GENERAL KNOWLEDGE,  
GENERAL SCIENCE,  
CURRENT AFFAIRS,  
SPORTS, NATIONAL-  
INTERNATIONAL GENERAL  
KNOWLEDGE OF STATE**

**सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान,  
समसामयिक घटनाक्रम, खेलकूद,  
देश-विदेश राज्य की  
सामान्य जानकारी**

126. Who has right to issue writs for enforcement of fundamental rights and for any other purposes -
- A. Supreme Court
  - B. High Court
  - C. Supreme Court and High Court both
  - D. District Court

127. Which is the last state of India?

- A. Andhra Pradesh
- B. Tamil Nadu
- C. Kerala
- D. Karnataka

128. Which part of saffron plant is used to obtain the spice "saffron"?

- A. Leaves
- B. Dry Stigma
- C. Fruits
- D. Petals

126. मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए तथा अन्य किसी प्रयोजनों के लिए लेख जारी करने का अधिकार किसे है -

- A. सर्वोच्च न्यायालय
- B. उच्च न्यायालय
- C. सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों
- D. जिला न्यायालय

127. भारत का सबसे अंतिम राज्य कौन सा है?

- A. आंध्रप्रदेश
- B. तमिलनाडु
- C. केरल
- D. कर्नाटक

128. केसर (जाफरान) पौधा का कौन सा भाग का उपयोग मसाला "केसर या जाफरान" प्राप्त करने में होता है?

- A. पत्तियाँ
- B. शुष्क स्तिगमा
- C. फल
- D. पंखुडियाँ

---

**SPACE FOR ROUGH WORK / रफ कार्य के लिये जगह**

129. Which of the following does the accreditation of Higher education institute?

- A. M.C.I.
- B. A.I.C.T.E.
- C. B.C.I.
- D. N.A.A.C.

130. Solder material contains

- A. Iron and tin
- B. Lead and tin
- C. Lead and Aluminium
- D. Tin and iron

131. Where Krem Um Ladaw cave was discovered?

- A. Meghalaya
- B. Manipur
- C. Mizoram
- D. Arunachal Pradesh

132. In which year the Indian National Congress passed the resolution of 'Purn Swaraj'?

- A. 1920 A.D.
- B. 1930 A.D.
- C. 1942 A.D.
- D. 1929 A.D.

133. When was the war between Akbar and Hemu?

- A. 1562 A.D.
- B. 1576 A.D.
- C. 1556 A.D.
- D. 1601 A.D.

129. निम्न में से कौन उच्च शिक्षा संस्थानों का प्रत्यायन करता है?

- A. एम. सी. आई.
- B. ए.आई.सी.टी.ई
- C. बी. सी. आई.
- D. एन. ए. ए. सी

130. सोल्डर पदार्थ में होता है :

- A. आयरन एवं टिन
- B. लेड एवं टिन
- C. लेड एवं एल्यूमिनियम
- D. टिन एवं आयरन

131. क्रेम-उम-लाडा गुफा की खोज कहाँ हुई?

- A. मेघालया
- B. मणीपुर
- C. मिजोरम
- D. अरुणाचल प्रदेश

132. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस वर्ष 'पूर्ण स्वराज्य' का प्रस्ताव पारित किया था?

- A. सन् 1920
- B. सन् 1930
- C. सन् 1942
- D. सन् 1929

133. अकबर और हेमू के मध्य युद्ध कब हुआ था?

- A. सन् 1562
- B. सन् 1576
- C. सन् 1556
- D. सन् 1601

---

SPACE FOR ROUGH WORK / रफ कार्य के लिये जगह

134. In the Maurya period the Guild had a meaning?

- A. Varn System
- B. Armi Rank
- C. Marchant's and Craftsmen Association
- D. Cabinet of Ministry

135. Which film of this state has received the award at the 67<sup>th</sup> 'National Filmfare Awards'.

- A. Bhulan the Maze
- B. Sound of Water
- C. Chhiyan Bhuiyan
- D. Johar Chhattisgarh

136. Where have the 'Kacha Gupta' coins been found in this state?

- A. Pach Rahi
- B. Akaltara
- C. Sirpur
- D. Banabard

137. Which of the following doesn't take Oath for the post –

- A. Nominated Members of Lok Sabha
- B. Speaker
- C. Nominated Members of Rajya Sabha
- D. State Ministers of Council of Ministers

134. मौर्यकाल में 'श्रेणी' का अर्थ होता था?

- A. वर्णव्यवस्था
- B. सेना का पद
- C. व्यापारी एवं शिल्पि संघ
- D. मंत्री-परिषद

135. 67 वी 'राष्ट्रीय फिल्म फेयर' अवार्ड में इस राज्य के किस फिल्म को पुरस्कार प्राप्त हुआ है ?

- A. भूलन द मेज़
- B. साउण्ड आफ़ वॉटर
- C. छइयां भूइयां
- D. जोहार छत्तीसगढ़

136. इस राज्य में 'काच गुप्त' के सिक्के इनमें से कहां प्राप्त हुआ है ?

- A. पचराही
- B. अकलतरा
- C. सिरपुर
- D. बानाबरद

137. इनमें से कौन पद की शपथ नहीं लेता -

- A. लोकसभा के नामांकित सदस्य
- B. स्पीकर
- C. राज्यसभा के नामांकित सदस्य
- D. मन्त्रिपरिषद के राज्य मन्त्री

---

SPACE FOR ROUGH WORK / रफ़ कार्य के लिये जगह

138. Where the country's first Dolphin research centre will be established?

- A. Ranchi                      B. Kolkata
- C. Lucknow                    D. Patna

139. In which river, Kiru Hydroelectric project will be developed?

- A. Jhelum
- B. Chenab
- C. Indus
- D. Ravi

140. What is true about Directive Principles of the State Policy

- A. It is important as moral ideals
- B. It is helpful in the interpretation of the Constitution
- C. It is the basis of evaluation of Government
- D. All above

141. When was Swaraj Party established?

- A. January 1923
- B. August 1922
- C. March 1921
- D. December 1920

142. Which of the following place of this state is the principal pilgrimage centre of Kabirpanthis?

- A. Girodpuri
- B. Damakheda
- C. Nagpura
- D. Arang

138. देश के पहले डॉल्फिन शोध केन्द्र की स्थापना कहाँ की जायेगी?

- A. रांची                      B. कोलकाता
- C. लखनऊ                    D. पटना

139. कीरू पन बिजली परियोजना किस नदी पर विकसीत की जायेगी?

- A. झेलम
- B. चिनाब
- C. इण्डस
- D. रावी

140. राज्य नीति के निर्देशक सिद्धान्त के विषय में सही क्या है -

- A. यह नैतिक आदर्श के रूप में महत्वपूर्ण है
- B. यह संविधान की व्याख्या में सहायक है
- C. यह शासन के मूल्यांकन का आधार है
- D. उपर्युक्त सभी

141. स्वराज्य दल की स्थापना कब हुई थी?

- A. जनवरी 1923
- B. अगस्त 1922
- C. मार्च 1921
- D. दिसम्बर 1920

142. इस राज्य का निम्नलिखित में से कौनसा स्थान कबीरपंथियों का प्रमुख तीर्थ स्थान है?

- A. गिरौदपुरी
- B. दामाखेड़ा
- C. नगपुरा
- D. आरंग

---

SPACE FOR ROUGH WORK / रफ कार्य के लिये जगह

143. A vote of a voter shall be invalid in the election of member of State Legislative Council if -

- A. He gives votes to all the candidates
- B. He gives vote to one candidate and leaves blank the rest
- C. He gives vote to one candidate
- D. He gives same preference no. to more than one candidate

144. The name of the Governor who has the shortest tenure in this state is

- A. Shri Ram Naresh Yadav
- B. Smt. Anandi Ben
- C. Lef. Gen. K. M. Seth
- D. None of above

145. In India, which state is surrounded by maximum number of states?

- A. Jharkhand
- B. Assam
- C. Chattisgarh
- D. None of these

146. In which of the following country, 2022's FIFA World Cup Men's Football Tournament will be organised?

- A. Qatar
- B. Germany
- C. Spain
- D. Denmark

143. राज्य विधान परिषद के सदस्य के निर्वाचन में एक मतदाता का मत अवैध होगा यदि –

- A. वह सभी प्रत्याशियों को मत देता है
- B. वह एक प्रत्याशी को मत देता है, शेष को रिक्त छोड़ देता है
- C. वह एक प्रत्याशी को मत देता है
- D. वह एकाधिक प्रत्याशी को समान वरीयता क्रमांक देता है

144. इस राज्य में सबसे कम कार्यकाल तक रहने वाले राज्यपाल का नाम है।

- A. श्री राम नरेश यादव
- B. श्रीमती आनन्दी बेन
- C. ले. जन. के. एम. सेठ
- D. उपरोक्त में कोई नहीं

145. भारत में सर्वाधिक राज्यों से घिरा राज्य कौन सा है?

- A. झारखंड
- B. असम
- C. छत्तीसगढ़
- D. उपरोक्त में कोई नहीं

146. 2022 के फीफा विश्व कप पुरुष फुटबाल टूर्नामेंट का आयोजन निम्न में से किस देश में किया जावेगा?

- A. कतार
- B. जर्मनी
- C. स्पेन
- D. डेनमार्क

---

SPACE FOR ROUGH WORK / रफ कार्य के लिये जगह

147. What would be the forest covered area for climate balance?

- A. One fourth area of total geographical area of the country
- B. One third Area of the total geographical area
- C. One fifth area of the total geographical area
- D. None of these

148. The Prime Minister of India is -

- A. Elected
- B. Nominated
- C. Appointed
- D. Selected

149. From the following in whose name the plan of Shiksha Gunavatta Abhiyan has been launched in this state?

- A. Rajiv Gandhi
- B. Atal Bihari Vajpayee
- C. A.P.J. Abdul Kalam
- D. Maulana Azad

150. In which of the following marriage in this state two families exchange bride and groom?

- A. Guranwat
- B. Lamsena
- C. Paysatur
- D. Paring-dhan

147. जलवायु संतुलन के लिए वनाच्छादित क्षेत्र क्या होना चाहिए?

- A. देश की कुल भौगोलिक क्षेत्र का एक चौथाई क्षेत्र
- B. कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का एक तिहाई क्षेत्र
- C. कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का एक पांचवा भाग
- D. इनमें से कोई नहीं

148. भारत का प्रधान मंत्री ----- होता है।

- A. निर्वाचित
- B. नामांकित
- C. नियुक्त
- D. चयनित

149. निम्नलिखित में से किसके नाम पर इस राज्य में शिक्षा गुणवत्ता अभियान की योजना कार्यान्वित की गई है?

- A. राजीव गांधी
- B. अटल बिहारी वाजपेयी
- C. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम
- D. मौलाना आजाद

150. इस राज्य में निम्नलिखित में से किस विवाह में दो परिवार आपस में वधू एवं वर का विनिमय करते हैं?

- A. गुरांवट
- B. लमसेना
- C. पायसातुर
- D. पारिंग धन

---

SPACE FOR ROUGH WORK / रफ कार्य के लिये जगह

**SET - A**

उत्तर अंकित करने का समय : 3 घंटे

अधिकतम अंक : 150

Time for making answers : 3 Hours

Maximum Marks : 150

नोट :

1. इस प्रश्न पुस्तिका में निम्न भाग होंगे :-

भाग - I

75 अंक

लेखा संबंधी ज्ञान

भाग - II

75 अंक

कम्प्यूटर संबंधी ज्ञान, हिन्दी भाषा, अंग्रेजी भाषा, गणित, सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, समसामयिक घटनाक्रम, खेलकूद, देश-विदेश राज्य की सामान्य जानकारी

प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। कुल 150 प्रश्न करने अनिवार्य है।

2. प्रश्नों के उत्तर, दी गई OMR उत्तरशीट (आंसरशीट) पर अंकित कीजिए।
3. गलत उत्तर अंकित करने पर ¼ अंक काटे जायेंगे।
4. किसी भी तरह के कैलकुलेटर या लॉग टेबल एवं मोबाइल फोन का प्रयोग वर्जित है।
5. OMR उत्तरशीट (आंसरशीट) का प्रयोग करते समय ऐसी कोई असावधानी न करें/बरतें जिससे यह फट जाये या उसमें मोड़ या सिलवट आदि पड़ जाये जिसके फलस्वरूप वह खराब हो जाये।

Note :

1. This Question Paper consists of Parts namely :-

**PART - I**

**75 Marks**

Accounts Related Knowledge

**PART - II**

**75 Marks**

Computer Related Knowledge, Hindi Language, English Language, Mathematics, General Knowledge, General Science, Current Affairs, Sports, National-International General Knowledge of State.

Each question carries 1 mark. All 150 questions are compulsory

2. Indicate your answers on the OMR Answer-Sheet provided.
3. **¼ mark will be deducted for each wrong Answer.**
4. Use of any type of calculator or log table and mobile phone is prohibited.
5. While using Answer-Sheet care should be taken so that the Answer-Sheet does not get torn or spoiled due to folds and wrinkles.